



Zenlabs Ethica Ltd.

CIN NO. : L74900CH1993PLC033112, GSTIN NO. : 03AAFCS6226G1ZL

Regd. Office : Plot No. 194-195, 3rd Floor, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh -160 002

Tel. : 0172-465 1105, Fax : 0172-265 6855

E-mail: queries@zenlabsethica.com, Website : www.zenlabsethica.com

The General Manager
Corporate Relationship Department
BSE LIMITED
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001
Maharashtra

Date: 07th September, 2023

SUB: Newspaper Advertisement for 30th Annual General Meeting (AGM) Notice and E-Voting Information

Ref: Zenlabs Ethica Limited Scrip Code: 530697

Respected Madam/Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform you that the advertisement on the captioned subject was published on September 7, 2023 in the following newspapers:

- 1. Financial Express (English-All Editions)**
- 2. Dainik Tribune (Hindi) (Chandigarh Edition)**

The clippings of both the Newspapers listed above are attached for your information and records.

Thanking you,

Yours truly,

For ZENLABS ETHICA LIMITED

AKSHAY Digitally signed
by AKSHAY
SAXENA
SAXENA Date: 2023.09.07
09:42:34 +05'30'

Akshay Saxena
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

ethos | WATCH BOUTIQUES ETHOS LIMITED

(CIN : LS2300HP2007PLC030800)

Registered Office: Plot No. 3, Sector - III, Panwano, District Solan (Himachal Pradesh) 173 220
Corporate Office: S.C.O. 88-89, Sector 8C, Madhya Marg, Chandigarh 160 009 | Tel.: +91 172 2548223/24
Fax : +91 172 2548302, website: www.ethoswatches.com, email id: investor.communication@ethoswatches.com

NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 16th (Sixteenth) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 29, 2023, at 10:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set forth in the Notice of the meeting dated September 5, 2023.

In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("Act") read together with regulation 36(1)(a) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("SEBI (LODR)") and as informed with Public Notice published on September 5, 2023, the Notice of the AGM along with Annual Report 2022-23 was sent on September 6, 2022 only through electronic means to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants/KFin Technologies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited), the Registrar and Share Transfer Agents (hereinafter referred to as "RTA" or "KFin") of the Company. The Notice of 16th AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 will also be made available on the Company's website at www.ethoswatches.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

In compliance with Section 108 of the Act, read with rules made thereunder, General Circulars no. 10/2022 and 11/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Regulation 44 of the SEBI (LODR) and in terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-ZP/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, the Company has provided a facility to its members to exercise their votes electronically through the electronic voting (e-voting) facility provided by the KFin Technologies Limited (KFin). The details as required pursuant to the aforementioned Act and Rules are as under:-

- The Cut-off date to determine the eligibility to cast vote by electronic voting is Friday, September 22, 2023. The e-voting shall be open for 3 (three) days, commencing at 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, September 26, 2023, and ending at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, September 28, 2023 for all shareholders whether holding shares in physical form or in dematerialized form. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
- Members who have acquired shares after the dispatch of Notice of AGM and are holding shares as on cut-off date i.e., September 22, 2023, may obtain the user ID and Password by sending a request at evoting@kfinfintech.com. The e-voting module shall be disabled by KFin for voting thereafter.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company would remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) pursuant to section 91 of the Act read with rules made thereunder and other applicable provisions, if any along with SEBI (LODR).
- CS Jaspreet Singh Dhawan, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 9372 and Certificate of Practice no. 8545) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process to be conducted in a fair and transparent manner.
- The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the websites of Company's RTA at <https://evoting.kfinfintech.com> immediately after the declaration of the results by the Chairman & Managing Director or person authorized by him, not later than forty-eight hours after the conclusion of the AGM.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of Annual General Meeting. In case, you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at the Downloads section of <https://evoting.kfinfintech.com>. Members are requested to address all correspondences, including queries regarding attending the AGM through VC/OAVM, dividend related matters (if any) or for any other matters, to the following:-

Particulars	KFin Technologies Limited	Ethos Limited
Address	Selenium, Tower B, Plot No 31 and 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareedi 500 032, Telangana	S.C.O. 88-89, Sector 8-C, Madhya Marg, Chandigarh - 160 009
Name & Designation	Mr. S.V. Raju, DGM Mr. Balaji Reddy, Senior Manager	Mr. Anil Kumar Company Secretary & Compliance Officer
Tel.	1-800-309-4001 (toll free)	0172-2548223/224
Email Id.	raju.sv@kfinfintech.com / balajireddy.s@kfinfintech.com evoting@kfinfintech.com	investor.communication@ethoswatches.com

For and on behalf of the Board of Directors of
Ethos Limited
Sd/-
Anil Kumar
Company Secretary

Date: September 7, 2023
Place: Chandigarh

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED (A Govt. of India Enterprise) (CIN: L74899DL1956GO1002674)

Regd. Office : Janshar Vyapar Bhawan, 1 Tolstoy Marg, New Delhi-110001
Tender No. STC/CO/BLD-E/P01155/2023/D-4040/1 Date: 06.09.2023

NOTICE INVITING TENDER TENDER FOR ENGAGEMENT OF PMC FOR CAPITAL & REVENUE WORKS IN STC BUILDING, JAWAHAR VYAPAR BHAWAN, NEW DELHI GEM Bid No. GEM/2023/B/3921385

Bids are invited from Central/State Government Agencies for appointment as Project Management Consultant (PMC) for various Capital and revenue works at New Delhi at estimated cost of Rs.12 Cr. For Details visit website: www.stclimited.co.in or www.gem.gov.in. Any Compendium will be uploaded on the above websites only. Last date for submission of bids is 28.09.2023 (1400 hours IST).

We (1) TULIKA TRILOK AGARWAL, (2) NIRMAL TRILOKCHAND AGARWAL, (3) PRASHANT VEDPRAKASH AGARWAL jointly hold 800 shares in Folio No. UB022393 bearing Share Certificate No. 102326; Distinctive Numbers from 753941 - 754740 and jointly hold 100 shares in Folio No. UB022393 bearing Share Certificate No. 102221; Distinctive Numbers from 210681159 - 210681258 of UNITED BREWERIES LIMITED having its Registered Office at 'UB TOWER', UB City, #24, Vittal Mallya Road, Bengaluru- 560 001.

That, in the above mentioned Certificates, our name is Registered and mentioned as 1) TULIKA TRILOK CHAND, 2) NIRMAL TRILOK CHAND and 3) PRASHANT TRILOK CHAND and in our PAN Card and DP CML the name is mentioned as 1) TULIKA TRILOK AGARWAL, 2) NIRMAL TRILOK CHAND AGARWAL AND 3) PRASHANT VEDPRAKASH AGARWAL which are One and the Same Only.

We have applied to the company and its RTA for issue of duplicate for 100 shares and for issue of letter of confirmation in names as per PAN and DP CML for facilitating demat of the said shares.

Place: Ahmedabad Date : 07.09.2023

ZENLABS ETHICA LIMITED

Regd. Office: Plot No. 194-195, 3rd floor, Industrial area, Phase II,
Ram Darbar, Chandigarh - 160002.
Tel: 0172-4651105, Email: queries@zenlabsethica.com
CIN: L74900CH1993PLC033112 | Website: www.zenlabsethica.com

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

- The 30th (Thirty) Annual General Meeting (AGM) of Zenlabs Ethica Ltd will be held on Saturday, the 30th day of September, 2023 at 11:30 a.m. IST at the registered office of the Company situated at Plot No. 194-195, 3rd Floor, Industrial Area, Phase II, Ram Darbar, Chandigarh-160002, to transact the business, as set out in the Notice of AGM.
- The Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 on Wednesday, 06th September, 2023 only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services India Private Limited ("RTA") Depositories.
- The Notice of 30th AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 are also available on the website of the Company at <https://www.zenlabsethica.com> and on the website of the stock exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com
- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time and 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 MCA Circulars, the Company is providing remote e-voting facility and e-voting facility at AGM, through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date i.e., 23rd September, 2023.
- The E-voting facility is being provided to the members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e., Saturday, the 23rd Day of the September, 2023 to exercise their right to vote by using e-voting facility at the AGM on any or all of the business specified in the Notice of the AGM.
- Date and time of Commencement and conclusion of Remote E-voting:
Commencement : 26th September, 2023 (09.00 AM)
Conclusion : 29th September, 2023 (05.00 PM)
- The Remote E-voting module shall be disabled for voting after 05.00 PM on Friday, 29th September, 2023, once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM, but are not eligible to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM shall be eligible to cast their vote. In case of Voting by both the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2023 may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with CDSL for remote e-voting, he can use his existing User Id and password for casting vote through remote e-voting.
- In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and e-voting manual available at download section of www.evotingindia.com or may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at 1800 22 55 33. Any queries/grievance relating to remote e-voting, shall be addressed to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Pvt. Ltd, Bharat Tin Works Building, 1st Floor Opp. Vasant Oasis, Next to Keys Hotel Makwana Road, Andheri East, Mumbai 400059. Tel No. 022-62638200 Extn.-206, Fax 022-62638299. E-mail: investor@bigshareonline.com or rajesh@bigshareonline.com

Date: 07.09.2023
Place: Chandigarh

For ZENLABS ETHICA LIMITED
Sd/-
Akshay Saxena
Company Secretary & Compliance Officer

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF GOLI VADA PAV PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of corporate debtor	GOLI VADA PAV PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of corporate debtor	31.12.2003
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RoC - Mumbai
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U15130MH2003PTC143785
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Shop No.A, Oil Light CHS, Plot No.25, Sector-1, Koperkhairne, Navi Mumbai, Thane - 400709.
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	Date of Order: 05.09.2023 Date of receipt of order: 05.09.2023 (through NCLT Website)
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	03.03.2024 (180 days from the date of order)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name: Mr. Vinod Radhakrishnan Nair Registration No.: IBS/IFA-001/IP-P01352/2018-19/12083
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Regd. Address: A-108, Om Rachana CHS, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai - 400705. Regd. Email: vinod@eirca.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim resolution professional	Correspondence Address: A-108, Om Rachana CHS, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai - 400705. Correspondence Email: Cirg2023@gmail.com
11. Last date for submission of claims	19.09.2023 (14 days from appointment of IRP)
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim resolution professional	Not Applicable as per information available with IRP
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable as per information available with IRP
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives available at:	Web Link: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address : Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (NCLT), Mumbai Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process against GOLI VADA PAV PRIVATE LIMITED by order dated 05.09.2023; copy made ready and communicated on 05.09.2023 through NCLT website.

The creditors of GOLI VADA PAV PRIVATE LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 19.09.2023 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditors belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class in Form CA.
Submission of false or misleading proof of claim shall attract penalties.
Date: 07/09/2023
Place: MUMBAI

Vinod Radhakrishnan Nair
Interim Resolution Professional
IBBI/IFA-001/IP-P01352/2018-19/12083

GlobalSpace Technologies Limited CIN: L64201MH2010PLC21219 Registered Office: 605, 6th Floor, Rupa Solitaire Building, Millennium Business Park Navi Mumbai, Thane, MH 400110 India | Tel: 022-48452000 Share ID: cs@globalSPACE.in | Website: <https://www.globalSPACE.in/>

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirteenth (13th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMITED will be held through video conferencing/other audio-visual means on Friday, September 29, 2023 at 03.00 PM. In compliance with applicable provisions of the Companies Act 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact businesses as detailed in the Notice dated September 06, 2023.

The Company has electronically sent the Notice of the AGM along with the Explanatory Statement and Integrated Annual Report for the financial year 2022-23 on Wednesday, September 06, 2023, to all the Members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depository/Depository Participants/Registrar and Transfer Agents. The Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 are also available on the Company's website at www.globalSPACE.in and on the website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com respectively.

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided electronic voting facility to its Members.

The details with respect to the e-Voting are as follows:

Cut-off date for e-Voting	Friday, September 22, 2023
Date and time of commencement of remote e-voting	September 26, 2023, at 9:00 A.M
Date and time of end of remote e-voting	September 28, 2023 at 5: 00 PM

Members may note that only persons whose names appear in the Register of Members, or the list of beneficial owners furnished by NSDL and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on the aforesaid cut-off date i.e., Friday, September 22, 2023, shall be entitled to vote on the resolutions set out in the Notice. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change the same subsequently. Remote e-voting will be disabled by National Securities Depository Limited after 5.00 p.m. on September 28, 2023.

The Members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The Members attending the AGM who have not cast their votes through remote e-voting will be able to vote through electronic voting facility provided by National Securities Depository Limited during the AGM.

SMS LIFESCENCES INDIA LIMITED

CIN: L74930TG2006PLC050223
Regd. office, Plot No.19-III, Road No.71, Jubilee Hills,
Opp. Bharatiya Vidya Bhavan Public School, Hyderabad - 500096
Website: www.smslife.in | Email: cs@smslife.in

NOTICE OF THE 17TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND OTHER INFORMATION

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 26th September, 2023, at 11.00 a.m.

SUPRIYA LIFESCIENCE LIMITED

Regd. office: 207/208, Udyog Bhawan, Sonawata Road, Durgam Cheruvu (East), Mumbai - 400063,
Tel: +91 22 023 2727. Email: cs@supriyalifesciences.co | Website: www.supriyalifesciences.co

सैनियर सिटीजन ने समस्याओं पर किया विचार



पिछले वर्ष संविधान समिति के अध्यक्ष डा. कृष्णमोहन शर्मा के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सैनियर सिटीजनों की समस्याओं पर चर्चा की गई।

सैनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. कृष्णमोहन शर्मा ने सैनियर सिटीजनों की समस्याओं पर विचार किया। उन्होंने कहा कि सैनियर सिटीजनों की समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक उपायों को अपनाना चाहिए।

करघर चयन के लिए 5 वैन रवाना

संविधान समिति के अध्यक्ष डा. कृष्णमोहन शर्मा के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सैनियर सिटीजनों की समस्याओं पर चर्चा की गई।

संविधान समिति के अध्यक्ष डा. कृष्णमोहन शर्मा ने सैनियर सिटीजनों की समस्याओं पर विचार किया। उन्होंने कहा कि सैनियर सिटीजनों की समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक उपायों को अपनाना चाहिए।

पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने दामा कोटवाल का दाय

संविधान समिति के अध्यक्ष डा. कृष्णमोहन शर्मा के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सैनियर सिटीजनों की समस्याओं पर चर्चा की गई।

पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने दामा कोटवाल का दाय संभाला है। उन्होंने कहा कि दामा कोटवाल का विकास और जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा।

'पंजाब पुलिस की अवेध खननकर्ताओं के साथ मिलीभगत'

संविधान समिति के अध्यक्ष डा. कृष्णमोहन शर्मा के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सैनियर सिटीजनों की समस्याओं पर चर्चा की गई।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ियों में अवेध खनन करवाते हैं। यह आरोप सैनियर सिटीजनों द्वारा लगाया गया है।

खबर है...

एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई कोसेल: बिदल गोकुल (बिदल) कोसेल जिले में बाबा ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा देकर एक परिवार को सौंप दिया था। लेकिन बाद में बाबा की जमीन को बिक्री के लिए निकाला गया।

डुमहर के 4 बच्चों को राज्यपाल पुरस्कार राज्यपाल ने डुमहर के चार बच्चों को पुरस्कार दिया। ये बच्चे अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए चुने गए थे।

पुल बनाने का कार्य युद्धस्तर पर पूरा करे सरकार : चित्रा आनंजन

राज्यपाल ने पुल बनाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पुलों का निर्माण जल्द ही पूरा होना चाहिए।

सांसद नायब सैनी ने गांवों में जाकर सुनी समस्याएँ

कैबल (हाथ) : सांसद नायब सिंह सैनी ने गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि सरकार को गांवों की समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए।



कैबल के दौरान सांसद नायब सिंह सैनी गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुने।

इसरो वैद्यमैन एस सोमनाथ को गोपाल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेगा कुटिल

इसरो वैद्यमैन एस सोमनाथ को गोपाल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेगा कुटिल। यह पुरस्कार उनके योगदान के लिए है।

इसरो वैद्यमैन एस सोमनाथ को गोपाल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेगा कुटिल। यह पुरस्कार उनके योगदान के लिए है।

नंबरदार एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक 20 को: सुनहरा सिंह

नंबरदार एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक 20 को सुनहरा सिंह आयोजित करेंगे।

नंबरदार एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक 20 को सुनहरा सिंह आयोजित करेंगे।

उद्योगों को बिजली निगम ने दी बेकडाउन और ट्रिपिंग से राहत

बिजली निगम ने उद्योगों को बेकडाउन और ट्रिपिंग से राहत दी है। यह उपाय उद्योगों के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए है।

बिजली निगम ने उद्योगों को बेकडाउन और ट्रिपिंग से राहत दी है। यह उपाय उद्योगों के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए है।

Advertisement for G2M featuring a person's photo and contact information.

Advertisement for 'निवदा सूचना' (Notice) regarding a meeting or event.

Advertisement for 'कार्यालय : नगर पालिका चीका' (Office: Municipal Corporation Chika).

Advertisement for 'कार्यालय : नगर पालिका चीका' (Office: Municipal Corporation Chika).

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'नवदी मेरे स्वामी की कार्यक्रम में सौम्य मितल होंगी' (New day is my owner's program, I will be gentle).

Advertisement for 'बठिंडा में नशे के खिलाफ अभियान' (Anti-drug campaign in Bathinda).

प्रदेश में एनसीपी की सरकार बनने पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम : मराठा

मराठा ने कहा कि एनसीपी की सरकार बनने पर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निर्माण होगा।



मराठा ने कहा कि एनसीपी की सरकार बनने पर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निर्माण होगा।

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.

Advertisement for 'हरियाणा सरकार' (Haryana Government) with a person's photo.